

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 162] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 162] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 44-ई टी सी (पी एन)/83

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

विषय -1983-84 के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट का बहुतायत में निर्यात

मि० सं० 22(3) 83-ई2 -उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण)
मणान्न आदेश सं० ई(सी) ओ, 1977/एण्स (272), दिनांक 19 सितम्बर,
1983 की ओर ध्यान दिलाया जाना है।

2 यह निश्चय किया गया है कि 1983-84 के दौरान बिना किसी मालिक
प्रतिबन्ध के विनिर्भाता निर्यातकों को स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट को बहुतायत मात्रा
में निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

3. तदनुसार, 1983-84 की आयात तथा निर्यात नीति (जिल्द-2) के पृष्ठ-21 पर की क्रम सं० 49 (18) पर के नीति विवरण में निम्न-लिखित प्रविष्टियाँ की जाएंगी :—

भाग "ख" की अनुसूची-1 के अनुसार क्रम सं०	वस्तु का ब्यौरा	लाइसेंस नीति
49 (18)	बहुतायत मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	किसी भी विनिर्माता निर्यातक को मात्रिक प्रतिबंध के बिना निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।

पी० सी० जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE No. 44-ETC (PN)/83

New Delhi, the 19th September, 1983

Subject :—Export of Streptomycin Sulphate Bulk, during 1983-84

F. No. 22(3)/83-EII:—Attention is invited to Exports Control Amendment Order No. E (C) O, 1977 /AM (272) dated the 19th September, 1983, on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Streptomycin Sulphate Bulk by manufacturer-exporters without any quantitative restriction during 1983-84.

3. Accordingly, the following entries shall be made in the Policy Statement at S. No. 49 (18) at page 21 of the Import and Export Policy (Vol. II) for 1983-84.

S. No. as in Part 'B' of Schedule-I	Description of the item	Licensing Policy
49 (18)	Streptomycin Sulphate Bulk.	Export allowed by any manufacturer-exporter without any quantitative restriction.

P. C JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports